

To
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroj Jeejibhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex
Bandra, (E), Mumbai – 400 0051

Scrip Code: 540403, Scrip Symbol: CLEUCATE

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47(1) read with Regulation 47 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Madam/Sir(s)


In continuation of our letter dated August 17, 2017 & August 24, 2017 with regard to intimation of date of Board meeting and outcome of Board meeting respectively, please find enclosed the copy of advertisement published in today's (i.e. August 26, 2017) newspaper edition of Financial Express and Jansatta.

The same is available on the Company's website as well.

Kindly take the above details on record.

Thanking You

For CL Educate Limited



Gautam Puri
Vice Chairman and Managing Director

Place: New Delhi

Date: 26.08.2017

Govt rejects Maha sugar millers' plea for compensation

NANDA KASABE
Pune, August 25

THE CENTRE HAS turned down a demand by private sugar mills of Maharashtra that they need compensation for commencing the crushing season of 2017-18 in October. Usually Maharashtra's sugar crushing season begins after Diwali.

Private sugar mills in Maharashtra had urged Union Food and Consumer Affairs minister Ram Vilas Paswan for a compensation of ₹500 per tonne on account of the losses that arise out of lower recoveries in sugar production following an early start of the season.

The Centre had issued directives to millers across the country to commence the crushing season of 2017-18 early in October to tide over any sugar shortage during the festive season. The industry has been raising concerns over a possible shortage of sugar during the peak festive season in Diwali and some of the trader organisations have been urging the government to import sugar to prevent any further spike in prices.

In a representation to the minister, the West India Sugar Mills Association (WISMA) president BB Thombare had said that the Maharashtra sugar mills are willing to commence the crushing season early in October. Normally, the crushing season in the state begins after Diwali in November when cane maturity is better and the monsoon is over. The sugar recovery in November remains 10-11% in the state, and in October the recovery drops to 8.5% to 9%, Thombare said.

In a reply to the demand put forward by the WISMA, GS Kalha, director of sugar policy at the ministry of consumer affairs, said that the request of WISMA for grant of incentive to start the crushing season early in October 2017 has been examined by the department.

"Usually, mills commence operations two to three days after Diwali. This year, Diwali is falling on October 19 and therefore sugar mills in the normal course may start their operations by October 22 and 23. It is a fact on record that at the time of commencement of sugar season, recovery is less compared to normal recovery and it improves with the passage of time as the season progresses," he said.

The recovery rate in October in Maharashtra generally remains less than 8% and even in November it remains between 9-9.7%. Recovery rate improves only in the month of December," he said.

Hence pre-poning crushing operations by two weeks may not cause substantial loss of recovery, he added. Moreover, as a bumper crop is expected in the crushing season, crushing should commence the crushing season early in October. Normally, the crushing season in the state begins after Diwali in November when cane maturity is better

Chinese media report on anti-dumping duties wrong: India

PRESS TRUST OF INDIA
Beijing, August 25

INDIA ON FRIDAY claimed as daily income of Chinese officials media report that India was planning to impose fresh anti-dumping duties this year on 93 products originating in China, saying they were already in force after decisions over a course of five years.

A report in the state-run China Daily on Friday said that Indian officials had said that India would this month impose anti-dumping duties on 93 products imported from China. "Some recent media reports have mentioned that the Government of India is planning to impose anti-dumping duty on 93 products from China. These reports are factually incorrect," the Indian Embassy here said in a statement.

The current situation is that anti-dumping duty is already in force on 93 products from China

consisting of chemicals and petrochemicals, products of steel and other metals, fibres and yarn, machinery items, rubber or plastic products, electric and electronic items, consumer goods among others, the statement said. The decision to impose anti-dumping duties on these 93

products originating in China were taken over a course of previous five years, it said. Ministry of commerce said on Wednesday that India should refrain from abusing trade remedy measures.

BCPL INTERNATIONAL LIMITED
(Formerly Birchi Chand Pannal Agencies Ltd)
Regd. Office: 27, Bipin Tripathi Mahalanagar, Narayan Building
7th Floor, Room No. 703, Kolkata - 700001, West Bengal
Email: info@birchichand.in, Website: www.birchichand.in
CIN: L31909WB1995PLC149698

NOTICE
Notice is hereby given that the Thirty Second Annual General Meeting ("AGM") of BCPL INTERNATIONAL LIMITED (Formerly Birchi Chand Pannal Agencies Ltd) will be held on Monday, September 18, 2017 at 11:30 AM at "Aashayam" (DLA Boys Hostel), 72, K. Sarani, Jessore Road, Near ILS Hospital (Opp Bhutan Consulate), Kolkata 700008, West Bengal, to transact the following business, as set out in the Notice of this Meeting:

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip/Form has been sent to all Members at their registered address through the permitted mode. The physical dispatch of Notice together with the Annual Report has been completed on August 25, 2017. The Notice of the AGM together with the Attendance Slip/Form, as well as the website of the Company viz. www.birchichand.in. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website or may request any member either through a letter or through email through the permitted mode. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Monday, September 11, 2017 to Thursday, September 18, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to the stipulation in Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM through electronic mode. The detailed process for participating in e-voting is available in the Notice of the Meeting. Members of the Company holding shares in dematerialized form, September 11, 2017 being the cut-off date (relevant date) may cast their vote electronically.

The remote e-voting facility shall commence on Friday, September 15, 2017 from 10:00 a.m. and end on Sunday, September 18, 2017 at 5:00 p.m. The e-voting module shall be disabled thereafter. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's website www.birchichand.in.

The facility of voting by Ballot paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the meeting.

A member may participate in the AGM after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot paper.

For any queries in relation to e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com or under help section or write an email to helpdesk@evotingindia.com. In case of difficulties Members may also contact the Company or the RTA by e-mail post@bcpl.in.

Place: Kolkata
Date: 25.08.2017
Company Secretary

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
Dr. Shyam Prasad Mukherjee Civic Centre (25th floor),
Jawaharlier Nehru Marg, New Delhi-110002, Ph. No. 011-2322-7212

OPEN TENDER FOR ALLOTMENT OF ADVERTISEMENT RIGHTS ALONG WITH MAINTENANCE & OPERATION THROUGH 02 DESIGNATED CLUSTERS CONTAINING STREET FURNITURE UNDER THE JURISDICTION OF SDMC

TENDER NOTICE
Bids are invited on behalf of Commissioner, SDMC & eligible bidders for allotment of advertisement rights along with maintenance & operation through two clusters containing Street Furniture items such as Police Booth, Vending Kiosk, Public Toilets, Quisbins, Advertisement Panels, Free Standing Units and Benches in Central Zone and South Zone under the jurisdiction of SDMC on monthly lease free basis in two bid system (Technical and Financial), for a period of seven years. The bidders can bid for 1 or both the clusters as per their financial capability as per the tender conditions. The advertisement rights in both the clusters shall be awarded to the successful H-1 bidder/bidders for display of advertisement along with maintenance & operations. The tender documents and other necessary details shall be available on SDMC's website: www.sdmc.org.in or on before 30.08.2017. The Last Date of Submission of bids is: 15.09.2017, Till 15:00 Hours.

Commercial Officer, Advt. SDMC
No. 10A/104/PV/17-18

PRECISION ELECTRONICS LIMITED
CIN: L32104DL1979PLC009590
Registered office: D-1581, New Friends Colony, New Delhi - 110025
Physical copy: 27th Floor, Mahan Co-operative Industrial Area,
Phase: 125/155/57, Ph: 120 2542337

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION
The notice is hereby given that:

i. The 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held at Signi Chandra Park Memorial Auditorium, A-51, Park Road, Mohan Co-operative Industrial Area, at 03:00 P.M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM on September 16, 2017.

ii. Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2017 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's Website www.precisionelectronics.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2017 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on August 25, 2017.

iii. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 18, 2017, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

- The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting shall commence on September 21, 2017 at 09:00 A.M.
- The remote e-voting shall end on September 24, 2017 at 05:00 P.M.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 16, 2017.
- Any person, who acquires shares of the Company and become member of Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date of September 16, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at investorrela@manakias.com. However, if a person is already registered with NSDL, he/ she may login using existing user ID and password to cast his/her vote.
- Members who do not have the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility for voting through Ballot paper shall be made available at the AGM and e-voting member may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through electronic voting system.
- Members who do not have the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The Notice of AGM is available on the Company's website www.precisionelectronics.com and also on the NSDL's website www.evotingindia.com and on the Company's website www.precisionelectronics.com.
- In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of the website www.evotingindia.com or call the NSDL helpline at 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade Winds, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bagat Marg, Lower Panel, Mumbai - 400013 or email at evoting@nscdi.co.in or rajiv@nscdi.co.in or at rajiv@nscdi.co.in or at telephone no. 022 24964000/022 24954738 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office address.

BOOK CLOSURE
The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 19, 2017 to September 25, 2017 (both days inclusive).

For Precision Electronics Limited
Veerita Pari
Company Secretary

Place: Noida
Date: August 26, 2017

CL EDUCATE LIMITED
Registered and Corporate Office: A-41, Espire Building, Lower Ground Floor, Mohan Co-operative Industrial Area,
Main Mathura Road, New Delhi-110044, Fax: +91 (11) 4128 1110, +91 (11) 4128 1110,
E-mail: compliance@cleducate.com, Website: www.cleducate.com, CIN: U74999DL1996PLC078483

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2017

S. No.	Particulars	(Amount in Rs. Lacs)	
		Standalone	Consolidated
1.	Total Income from Operations (net)	4,389.22	4,212.60
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary Items)**	372.75	349.13
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	372.75	349.13
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	295.46	285.29
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)**)	251.66	240.31
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	10.00	10.00
7.	Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - a. Basic b. Diluted	1.77 1.77	2.00 1.86

* Since the Company got listed on 31.03.2017, IND-AS format was not applicable for previous financial year & hence comprehensive income number is not available for Full Year FY17.

** Profits Before Tax (and before Exceptional and/or Extraordinary Items) includes both Profit before tax from Continued Operations & Discontinued Operations.

4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the website of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the Company at www.cleducate.com.

QUARTERLY STATEMENT PURSUANT TO REGULATION 32(1) OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015. FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2017

Name of the Listed Entity :			(Amount in Rs.)		
Period	Project	Utilization of Net Proceeds	Period	Project	Utilization of Funds till
S. No.	Particulars		S. No.	Particulars	June 30, 2017#
1.	Meeting working capital requirements of CL Educate and its subsidiaries namely		1.	Meeting working capital requirements of CL Educate and its subsidiaries namely	
2.	Keystone Integrated Marketing Services Private Limited and GK Publications Private Limited	525,000,000	2.	Keystone Integrated Marketing Services Private Limited and GK Publications Private Limited	411,966,123
3.	Investment in equity taken by Carveo Infrastructure Private Limited (A step down subsidiary) from HFDC Bank Ltd.	186,040,723	3.	Investment in equity taken by Carveo Infrastructure Private Limited (A step down subsidiary) from HFDC Bank Ltd.	186,040,723
4.	Acquisitions and other strategic initiatives	200,000,000	4.	Acquisitions and other strategic initiatives	15,82,825
5.	General corporate purposes	100,628,550*	5.	General corporate purposes	
	Total	1,011,669,273*		Total	598,006,846

* Balance Funds of Rs 413,862,427/-, pending utilization, are parked in bank fixed deposits subject to finalisation/reconciliation of pending fees charges.

The aforesaid statement, as reviewed by the Audit Committee of the Company, is also available on the website of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the Company at www.cleducate.com.

Date: August 24, 2017
Place: New Delhi
For and on behalf of CL Educate Limited
Yogesh Kumar Aggarwal
Managing Director
DIN: 01376202

Deadline for Aadhaar-PAN linkage to stay, says UIDAI CEO

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 25

TAXPAYERS WILL have to link their PAN with Aadhaar by the stipulated deadline, which is this month-end, as the Supreme Court verdict on privacy has no bearing on the requirement, UIDAI CEO Ajay Bhushan Pant said on Tuesday.

The requirement for Aadhaar being quoted for availing government subsidies, welfare schemes and other benefits will also continue unhindered for now, he said. The government had mandated linking of PAN with Aadhaar by the extended deadline of August 31, 2017.

Asked about the implication of the Supreme Court ruling (privacy being a fundamental right) on linking of Aadhaar and PAN, Pandey said, "There is nothing of PAN to Aadhaar is mandated by an amendment in income tax act... the linking will continue under that act... there is no change".

He said various deadlines that have been prescribed, be it under provision of Aadhaar Act, Income Tax Act or money laundering rules, will "have to be adhered to" as "those laws are valid".

He extended confidence that Aadhaar Act, with its data protection safeguards, will pass the test of privacy being a fundamental right.

The biometric identifier is currently required for services ranging from getting subsidised cooking gas to opening bank account and obtaining a new phone number. The Supreme Court judgement has not said anything about the Aadhaar Act, so the Aadhaar Act is a valid Act passed by the Parliament (and) is the law of the land," Pandey said. Section 7 of the act "prescribes that for getting certain subsidy or benefit the government can insist on an Aadhaar number. That position holds today," he said.

Pandey's clarification assumes significance in the light of a landmark verdict by the apex court on Thursday that privacy is a fundamental right and an intrinsic part of Right to Life and Personal Liberty. Several experts have said that the judgement will have a bearing on data collection and storage guidelines followed by various agencies, including in large projects like Aadhaar.

Tactful Investments Limited
CIN: L74999DL1996PLC007615
Regd. Off: 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
Ph. No. 43555557, Email: tactfulindia@gmail.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2017

(Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2017)

S. No.	Particulars	(Amount Rs. In Lacs)	
		Quarter ended 30th June, 2017	Year ended 30th June, 2016
1.	Total Income from Operations (Net)	-	25.92
2.	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.49)	(430.31)
3.	Net Profit/Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.49)	(430.31)
4.	Net Profit/Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.49)	(430.31)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1.49)	(430.31)
6.	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10/- each)	10305000	10305000
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year	-	52219882.00
8.	Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a. Basic b. Diluted	(0.014) (0.014)	(4.178) (4.178)

Note:
1. The above unaudited quarterly Financial Results after being reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meeting held on 25th August 2017.
2. The Company has adopted Indian Accounting Standards from 1st April, 2017 transact date being 1st April, 2017 and results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the accepted accounting principles generally accepted in India.
3. Figures for the previous year has been reworked, regrouped, reclassified to conform with those of the current year wherever necessary.
4. Limited Review Report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.
5. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2017, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015.

For & on behalf of Board of Directors for Tactful Investments Limited
Vijay Pal Shukla
Managing Director
DIN: 01376202

Amorphos Industries Limited
(CIN: L24119DL1995PLC071851)
Regd. Off: 2nd Floor, E115 Sector-7, Rohini, Delhi - 110085
Ph. No. 43555567, Email: amorphosindustries@gmail.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2017

(Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2017)

S. No.	Particulars	(Amount Rs. In Thousand)	
		Quarter ended 30th June, 2017	Year ended 30th June, 2016
1.	Total Income from Operations (Net)	30.00	24.00
2.	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	11.36	(2552.12)
3.	Net Profit/Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	11.36	(2552.12)
4.	Net Profit/Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	11.36	(2552.12)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	11.36	(2552.12)
6.	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10/- each)	51,500,000	51,500,000
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year	-	(8274818.00)
8.	Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a. Basic b. Diluted	0.0022 0.0022	(0.4966) (0.4966)

Note:
1. The above unaudited quarterly Financial Results after being reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meeting held on 25th August, 2017.
2. The Company has adopted Indian Accounting Standards from 1st April, 2017 transact date being 1st April, 2017 and results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the accepted accounting principles generally accepted in India.
3. Figures for the previous year has been reworked, regrouped, reclassified to conform with those of the current year wherever necessary.
4. Limited Review Report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.
5. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2017, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015.

For & on behalf of Board of Directors for Amorphos Industries Limited
Yogesh Kumar Aggarwal
Managing Director
DIN: 01376202

SURYA INDIA LIMITED
CIN: L74999DL1995PLC019991
Regd. Office: 9/11/3, Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi-44
Tel: +91 11 42024115, Fax: +91 11 28989016
Email: cag@suryaonline.com

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Thursday, the 31st Day of August, 2017 at 04.00 p.m. at the registered office of the Company inter-alia to consider and approve and take on record the Consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ended on 31st March, 2017 and to fix the date, time and venue for the ensuing Annual General Meeting.

For the above mentioned purpose, Trading Window period for dealing in securities of the Company will be closed from 25th August, 2017 to closing business hours of 2nd September, 2017 (both days inclusive) pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

The information is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the shares of the Company are listed and is also available on the website of the Company (www.suryaindiaodf.com).

For Surya India Limited
(Ajesh Grover)
Company Secretary
S. No. FN 2542
Date: 25.08.2017
Place: New Delhi

म्यामा में 'बंगाली आतंकियों' का हमला, 89 की मौत

मानसदा, 25 अगस्त (एएफपी)।

म्यामा के उत्तरी राखिन राज्य में रोहिंग्या आतंकियों द्वारा सोमा जिलेकी को घर लगे के बाद हुए हमले में 82 प्रमुख अधिकारियों सहित कम से कम 89 लोगों की मौत हुई है।

यह राज्य आर्थिक नजरत के कारण विभाजित है, जिसके केंद्र में रोहिंग्या प्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यक हैं। म्यामा नागरिक नहीं देता, और उन्हें बौद्ध बहुल म्यामा में अस्थायी रूप से रहना पड़ता है।

विद्रोहियों ने 20 चौकीयों पर हमला बोला, 12 सुरक्षा अधिकारी मारे गए।

कांग्रेस इन चौकीयों पर हमला करने के लिए तैयार है। इन चौकीयों पर हमला करने के लिए तैयार है। इन चौकीयों पर हमला करने के लिए तैयार है।

आस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा

मेलबर्न, 25 अगस्त (भाषा)।

आस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को चेतावनी के एक मामले में स्वयंभू यात्रा शुरू करने के लिए सतर्क रहने को कहा है।

साल 2002 के बलात्कार मामले में सीबीआई को विशेष अदालत में नाम रखने की सीमा खत्म करने के बाद यह हिसा भड़की। विशेष मामलों में व्यवहार विभाग की ओर से जारी परामर्शों में भारत जाने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या में एकांतित होने से बचने और स्थानीय अधिकारियों को सलाह देने के लिए कहा गया है।

Table with 5 columns: S. No, Particulars, Standalone Quarter ended, Consolidated Quarter ended, Standalone Year ended, Consolidated Year ended. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

QUARTERLY STATEMENT PURSUANT TO REGULATION 32(1) OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2017

Table with 2 columns: Name of the Listed Entity, Date of Listing, Date of Reporting, Date of Audit.

Table with 3 columns: S. No, Particulars, Projected utilization of Net proceeds, Cumulative utilization of Funds till June 30, 2017. Rows include Meeting working capital requirements, Repayment of loan, etc.

Balance of Rs 413,662,427/-, pending utilisation, are parked in bank fixed deposits subject to finalization/reconciliation of pending fees/charges

Date: August 24, 2017 Place: New Delhi

थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

बैंकाक, 25 अगस्त (एएफपी)।

थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री शिंगलक शिनावाटा को गिरफ्तारी के एक मामले में सुनवाई के लिए शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं हुई।

अशांति जताई जाने लगी कि कई वरिष्ठ आत्म निराश्रितों में रह रहे अपने अल्पविक्रय यादविक के पास तो नहीं चली गईं।

हाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। प्रश्नचार्क का दोषी ठहराया जाने और दो साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद यह 2008 में देश छोड़कर चले गए हैं।

काबुल में मस्जिद पर हमला, 20 की मौत

काबुल, 25 अगस्त (एपी)।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार जूमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में सुबह अठारह बजे में हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और 100 लोग घायल हुए।

अमेरिकी नाविक का शव मिला

सिंगापुर, 25 अगस्त (एपी)।

अमेरिकी नौ सेनिकों ने शुक्रवार को सिंगापुर के करीब चार घण्टा के बीच डूबकर मारे गए दूरस्थ व्यक्ति को पहचान कर ली।

नोटिस

एवटिंग नोटिस का नोटिस जारी है कि कंपनी की 27वीं आम वार्षिक बैठक मानसदा, दिनांक 19 सितंबर, 2017 को दोपहर 12.00 बजे एवर फोर्स ऑफिसोरियम, सुबर्बा की, मौला कुआं, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी।

आइएस के हमले में 34 मरे

बेरुत, 25 अगस्त (एएफपी)।

सिरिया के राका प्रांत में इस्लामिक स्टेट के जवाबी हमले में कम से कम 34 सिरियाई सैनिक और सहयोगी लड़ाके मारे गए हैं।

Table for Amorphous Industries Limited and Ujjwal Limited. Includes financial statements for quarters ended 30th June 2017 and 31st March 2017.

Table for Ujjwal Limited. Includes financial statements for quarters ended 30th June 2017 and 31st March 2017.

Table for Tactfull Investments Limited. Includes financial statements for quarters ended 30th June 2017 and 31st March 2017.